

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 5371-98-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 10 OF 2016.

**THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN
VIDHEYAK, 2016****A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from 1st April, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "rupees thirty thousand", the words "rupees fifty thousand", for the words "rupees twenty seven thousand", the words "rupees forty five thousand", for the words "rupees twenty five thousand", the words "rupees forty thousand" and for the words "rupees twenty thousand", the words "rupees thirty five thousand" shall be substituted.

Substitution of section 4.

3. For Section 4 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance.

“ 4. (1) There shall be paid to the Chief Minister a sumptuary allowance of fifty five thousand rupees, to each Minister forty five thousand rupees, to each Minister of State thirty four thousand rupees and to each Deputy Minister and Parliamentary Secretary twenty five thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Chief Minister a constituency allowance of fifty thousand rupees, to each Minister thirty five thousand rupees, to each Minister of State thirty one thousand rupees and to each Deputy Minister and Parliamentary Secretary twenty five thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Chief Minister and to each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a daily allowance of forty five hundred rupees per month within the State and two thousand five hundred rupees outside the State per day during the term of office.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of inflation in recent years, it is proposed to enhance the salary, sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance of the Chief Minister, Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary. Therefore, it is proposed to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) suitably.

2. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 30th March, 2016.

LAL SINGH ARYA
Member-in-charge.